

नोट: सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है।

प्र01. वह कवि तो तत्काल कविता करने में कुशल है, निम्न में क्या कहलाता है:

- | | |
|------------|------------|
| (क) आशुकवि | (ख) महाकवि |
| (ग) सुकवि | (घ) राजकवि |

प्र02. शब्द 'कालीमिर्च' किस समास का उदाहरण है:—

- | | |
|--------------------|---------------------|
| (क) बहुब्रीहि समास | (ख) कर्म धारय समास |
| (ग) तत्पुरुष समास | (घ) अव्ययी भाव समास |

प्र03. कृपण शब्द का विलोम निम्न में क्या होगा:

- | | |
|------------|-----------|
| (क) तर्पण | (ख) दानी |
| (ग) शूरवीस | (घ) अर्पण |

प्र04. उज्ज्वल शब्द कौन सा सही सन्धि विच्छेद है?

- | | |
|----------------|----------------|
| (क) उत् + ज्वल | (ख) उज् + ज्वल |
| (ग) उज्ज + वल | (घ) उजु + ज्वल |

प्र05. जिस छंद में चार चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह निम्न में क्या है:

- | | |
|-----------|-----------|
| (क) रोला | (ख) दोहा |
| (ग) चौपाई | (घ) सोरठा |

Q.6. Who wrote these lines:

"Early to bed and early of rise makes a man Healthy, Wealthy and Wise"

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| (a) W. B. Yeats | (b) Mulkraj Anand |
| (c) Frauklin | (d) Rabindra Nath Tagore |

Q.7. What is the synonym of "Elegant":

- | | |
|--------------|-------------------|
| (a) Gentle | (b) Famous |
| (c) Graceful | (d) None of these |

Q.8. Fill in the blanks with appropriate prepositions. You must not look down.....the poor:

- | | |
|----------|----------|
| (a) at | (b) on |
| (c) upon | (d) over |

- Q.9.** Which is the best alternative to complete the sentence. If I were the Prime Minister of India.....:
- (a) I will help the poor (b) I would help the poor
(c) I had helped the poor (d) None of these
- Q.10.** Find out the correct indirect narration of the following direct speech:
He said, "Alas ! I am undone."
- (a) He exclaimed alas that he was undone
(b) He told alas that he was undone
(c) He exclaimed sadly that he was undone
(d) None of these
- Q.11.** Which one is correct passive voice of the sentence. "Help the poor".
- (a) Let the poor be helped (b) The Poor should be helped
(c) Poors should be helped (d) Let the poors be helped
- Q.12.** Who is the writer of "To a skylark"?
- (a) Shakespeer (b) P.B. Shelley
(c) Jhon keats (d) Franklin
- Q.13.** The old Parliament Building is now officially named as:
- (a) Lok Sabha Bhawan (b) Lok Sabha Sadan
(c) Samvidhan Sadan (d) Rajya Sabha Bhawan
- प्र०13. पुरानी संसद भवन का आधिकारिक तौर पर नया नाम निम्न में क्या है:
- (क) लोक सभा भवन (ख) लोक सभा सदन
(ग) संविधान सदन (घ) राज्य सभा भवन
- Q.14.** Who is the Chief Minister of Goa?
- (a) Sarvanand Sonowal (b) Promod Sawant
(c) Ram Naik (d) Rohan Khante
- प्र०14. वर्तमान में गोवा का मुख्यमंत्री कौन है?
- (क) सर्वानंद सोनोवाल (ख) प्रमोद सावंत
(ग) राम नाइक (घ) रोहन खांटे

- Q.15.** Which cricketer has recently exceeded Sachin Tendulkar's record of 49 centuries?
- (a) Rohit Sharma (b) Virat Kohli
(c) Shubhman Gill (d) Hardik Pandiya
- प्र015. हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सचिन तेंदुलकर के रिकार्ड 49 से आगे गया।
- (क) रोहित शर्मा (ख) विराट कोहली
(ग) शुभमन गिल (घ) हार्दिक पाण्डया
- Q.16.** Who is the recipient of the Dada Saheb Phalke Life time achievement award 2023?
- (a) Amitabh Bachchan (b) Shah Rukh Khan
(c) Waheeda Rehman (d) Salman Khan
- प्र016. हाल में दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता निम्न में कौन है:
- (क) अमिताभ बच्चन (ख) शाहरुख खान
(ग) वहीदा रहमान (घ) सलमान खान
- Q.17.** In which event did shooter Palak Gulia won a Gold Medal in the Asian games?
- (a) Women's Shot put (b) Women's Squash
(c) Women's 10m air pistol (d) Women's 10m Rifle
- प्र017. निशानेबाज पलक गुलिया ने एशियाई खेलों में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता?
- (क) महिलाओं का गोला फेंक (ख) महिलाओं का सक्वैश
(ग) महिलाओं का 10मी0 एअर पिस्टल (घ) महिलाओं का 10मी0 रायफल
- Q.18.** Which city was awarded the best city prize in India at India Smart City conclave 2023:
- (a) Mumbai (b) New Delhi
(c) Indore (d) Bengluru
- प्र018. इंडिया स्मार्ट सिटी कन्क्लेव 2023 में भारत के किस शहर को प्रथम स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला?
- (क) मुंबई (ख) नई दिल्ली
(ग) इन्दौर (घ) बेंगलूरु

Q.19. What is the name of Lander Module in Chandrayan-3 mission:

(a) Luna

(b) Explorer

(c) Vikram

(d) Apollo

प्र019. चन्द्रयान-3 मिशन में लैंडर माड्यूल का क्या नाम है?

(क) लूना

(ख) एक्सप्लोरर

(ग) विक्रम

(घ) अपोलो

Q.20. How many elements are there in Multimedia:

(a) 4

(b) 3

(c) 2

(d) 5

प्र020. मल्टीमीडिया के कुल कितने अवयव हैं?

(क) 4

(ख) 3

(ग) 2

(घ) 5

Q.21. What is the common language of artificial intelligence:

(a) Python

(b) Java

(c) Lisp

(d) PHP

प्र021. आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स की सामान्य भाषा कौन सी है?

(क) Python

(ख) Java

(ग) Lisp

(घ) PHP

Q.22. 1 N/m^2 is the S.I. unit of:

(a) Force

(b) Pressure

(c) Weight

(d) Mass

प्र022. 1 N/m^2 निम्न में किसकी S.I. इकाई है?

(क) बल

(ख) दाब

(ग) भार

(घ) द्रव्यमान

Q.23. The front part of an eye is called:

(a) Iris

(b) Pupil

(c) Cornea



(d) Retina

प्र023. आँख का अगला भाग निम्न में क्या है?

- (क) आयरिश
(ग) कार्निया



- (ख) पुतली
(घ) रेटिना



Q.24. Which of these is not a symbol of a circuit element?

- (a) 
(c) 

- (b) 
(d) 

प्र024. निम्न में कौन सा सर्किट तत्व का प्रतीक चिह्न नहीं है?

- (क) 
(ग) 

- (ख) 
(घ) 

Q.25. Which metal can not be stored in packets?

- (a) Sodium
(c) Magnesium

- (b) Calcium
(d) Zinc

प्र025. किस धातु को पैकेट में संग्रहित नहीं किया जा सकता है।

- (क) सोडियम
(ग) मैग्नीशियम

- (ख) कैल्शियम
(घ) जिंक

Q.26. Which chemicals are used to preserve food stuffs?

- (a) Borax
(c) Potassium Per manganate

- (b) Sodium benzoate
(d) None of these

प्र026. खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने हेतु किस रसायन का उपयोग किया जाता है?

- (क) बोरेक्स
(ग) पोटेशियम परमैंगनेट

- (ख) सोडियम बेंजोएट
(घ) इनमें से कोई नहीं

Q.27. pH value of blood is:

- (a) 7.4 (b) 1.4

- (c) 2.5 (d) 2.7

प्र027. रक्त का pH मान निम्न में क्या है।

- (क) 7.4 (ख) 1.4

- (ग) 2.5 (घ) 2.7

Q.28. The tiny filtering units of kidney are:

(a) Ureter

(b)

Nephron

(c) Urethra

(d)

Bladder

प्र028. गुर्दे की छोटी छानने वाली इकाई निम्न में क्या है:

(क) मूत्रवाहिनी

(ख)

नेफ्रॉन

(ग) मूत्रमार्ग

(घ)

मूत्राशय

Q.29. Ozone layer depletion is primarily caused due to which of the following:

(a) Oxygen

(b)

Sulphur

(c) Chloro fluorocarbons

(d)

Carbon Dioxide

प्र029. ओजोन परत का क्षय प्राथमिक रूप से निम्न में किसके कारण होता है।

(क) ऑक्सीजन

(ख)

सल्फर

(ग) क्लोरो फ्लोरोकार्बन

(घ)

कार्बन डाईऑक्साइड

Q.30. x , y , and z are prime numbers such that $x + y + z = 38$ then the maximum value of x is:

(a) 19

(b) 23

(c)

31

(d)

प्र030. x , y , और z अभाज्य संख्यायें हैं इस प्रकार कि $x + y + z = 38$ तो x का महत्तम मान क्या होगा?

(क) 19

(ख) 23

(ग)

31

(घ)

Q.31. The ratio of two numbers is $7 : 11$. Their highest common factor (HCF) is 28. Their difference will be:

(a) 112

(c) 28

(b)

196

(d)

308

प्र031. दो संख्यायें जिनका अनुपात $7 : 11$ है, का महत्तम समापवर्तक (HCF) 28 है। इनका अन्तर निम्न में क्या होगा:

(क) 112

(ग) 28

(ख)

196

(घ)

308

प्र035. सीमा ने मोबाइल फोन सेट 18.5% छूट पर खरीदा। यदि उसे 24% को छूट मिली होती तो वह अतिरिक्त 1650 रू0 बचा सकती थी तो उसने कितना भुगतान किया?

- (क) रू0 22,800 (ख) रू0 30,000
(ग) रू0 25,000 (घ) रू0 24,450

Q.36. A can do 50% of a job in 16 days B can do the $\frac{1}{4}$ th of job in 24 days. In how many days can they do $\frac{3}{4}$ th of the job by working together:

- (a) 24 days (b) 21 days
(c) 18 days (d) 16 days

प्र036. A किसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में व B उसी काम के $\frac{1}{4}$ भाग को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो दोनों साथ मिलकर काम के $\frac{3}{4}$ भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे?

- (क) 24 दिन (ख) 21 दिन
(ग) 18 दिन (घ) 16 दिन

Q.37. The sides of a triangle are 12, 16 and 20 then its area will be:

- (a) 250 (b) 192
(c) 96 (d) 300

प्र037. किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्न में क्या होगा यदि उसकी भुजायें 12, 16 व 20 हों?

- (क) 250 (ख) 192
(ग) 96 (घ) 300

Q.38. If $a + \frac{1}{a} = 3$ then $a^4 + \frac{1}{a^4} = ?$

- (a) 47 (b) 51
(c) 49 (d) 54

प्र038. यदि $a + \frac{1}{a} = 3$ तो $a^4 + \frac{1}{a^4} =$ का मान क्या होगा?

- (क) 47 (ख) 51
(ग) 49 (घ) 54

Q.39. The height of a cone is 24cm and area of the base is 154 cm^2 then curved surface area of cone will be:

(a) 484 cm^2

(c) 525 cm^2

(b) 550 cm^2

(d) 575 cm^2

प्र.39. एक शंकु की ऊंचाई 24 सेमी है, और आधार का क्षेत्रफल 154 सेमी^2 है, तो शंकु का घुमावदार सतह क्षेत्र होगा:

(क) 484 सेमी²

(ग) 525 सेमी²

(ख) 550 सेमी²

(घ) 575 सेमी²

Q.40. If
$$\frac{a^n \times 3^2 \times \left(3^{\frac{n}{2}}\right)^{-2} - 27^n}{3^{3m} \times 2^3} = \frac{1}{729}$$
 find $m-n$

(a) 3

(c) 2

(b) 1

(d) 4

प्र.40. यदि
$$\frac{a^n \times 3^2 \times \left(3^{\frac{n}{2}}\right)^{-2} - 27^n}{3^{3m} \times 2^3} = \frac{1}{729}$$
 तो $m-n$ निम्न में क्या होगा:

(क) 3

(ख) 1

(ग) 2

(घ) 4

Q.41. The sum of the squares of 3 natural numbers is 1029 and they are in proportion of 1 : 2 : 4 then the difference between greatest and smallest number will be:

(a) 21

(c) 18

(b) 15

(d) 31

प्र.41. 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1029 है, वे 1 : 2 : 4 के अनुपात में हैं तो महत्तम व न्यूनतम संख्या का अन्तर निम्न में क्या होगा?

(क) 21

(ग) 18

(ख) 15

(घ) 31

Q.42. The north-south extension of India is:

- (a) 2500 km. (b) 3214 km.
(c) 2933 km. (d) 3600 km.

प्र042. भारत का उत्तर-दक्षिण विस्तार निम्न में क्या है?

- (क) 2500 किमी0 (ख) 3214 किमी0
(ग) 2933 किमी0 (घ) 3600 किमी0

Q.43. State Bird of Uttar Pradesh is:

- (a) House Sparrow (b) Peacock
(c) Saras Crane (d) Parrot

प्र043. उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी निम्न में कौन है:

- (क) गौरैया (ख) मोर
(ग) सारस क्रेन (घ) तोता

Q.44. Yellow revolution is associated with:

- (a) Food Grains Production (b) Milk Production
(c) Oil seeds production (d) Fish Cultivation

प्र044. पीत क्रांति निम्न में से किससे सम्बन्धित है:

- (क) खाद्यान्न उत्पादन (ख) दुग्ध उत्पादन
(ग) तिलहन उत्पादन (घ) मछली उत्पादन

Q.45. When did Reserve Bank of India came into existence:

- (a) 1st April 1935 (b) 1st April 1939
(c) 26th November 1949 (d) 1st July 1950

प्र045. भारतीय रिजर्व बैंक कब अस्तित्व में आया?

- (क) 1 अप्रैल 1935 (ख) 1 अप्रैल 1939
(ग) 26 नवम्बर 1949 (घ) 1 जुलाई 1950

Q.46. The President of India is elected by:

- (a) Direct Election
- (b) Members of Parliament
- (c) Electoral College
- (d) System of Universal Adult Franchise

प्र046. भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में कैसे होता है:

- (क) प्रत्यक्ष चुनाव
- (ख) संसद सदस्यों द्वारा
- (ग) निर्वाचक मंडल
- (घ) सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा

Q.47. The right to information act was passed by Parliament in which year:

- (a) 2009
- (b) 2005
- (c) 2006
- (d) 2010

प्र047. भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया?

- (क) 2009
- (ख) 2005
- (ग) 2006
- (घ) 2010

Q.48. The scientist who established that clouds have electrical charge was:

- (a) Benjamin Franklin
- (b) James Watt
- (c) Isaac Neutron
- (d) None of these

प्र048. बादलों में विद्युत आवेश किस वैज्ञानिक ने खोजा?

- (क) बेंजामिन फ्रैंकलिन
- (ख) जेम्स वाट
- (ग) आइसक न्यूटन
- (घ) इनमें कोई नहीं

Q.49. The largest Stupa at Sanchi pertains to which period:

- (a) Mauryan period
- (b) Kushana period
- (c) Gupta period
- (d) Harsh Vardhan period

प्र049. वृहत् साँची स्तूप किस काल से है?

(क) मौर्य काल

(ख) कृषाण काल

(ग) गुप्त काल

(घ) हर्षवर्धन काल

Q.50. The day Bhagat Singh, was hanged is observed as Martyrs' day every year on:

(a) 13th March

(b) 23rd March

(c) 30th March

(d) 31st March

प्र050. जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह "शहीद दिवस" के रूप में प्रति वर्ष कब मनाया जाता है?

(क) 13 मार्च

(ख) 23 मार्च

(ग) 30 मार्च

(घ) 31 मार्च

